

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9]
No. 9]

नई दिल्ली, अप्रैल 18—अप्रैल 24, 2004, शनिवार/चैत्र 29—वैशाख 4, 1926
NEW DELHI, APRIL 18—APRIL 24, 2004, SATURDAY/CHAITRA 29—VAISAKHA 4, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2004

का. नि.आ. 53.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में वायुसेना मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ए एस वी टेट्रा स्कूल, वायुसेना स्टेशन, आवडी, मद्रास को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारी-वृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[सं. 1(1)/2000/रक्षा(रा. भा.-I)]

पी. के. रस्तोगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st April, 2004

S.R.O. 53.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the A.S.V. Tetra School, Air Force

Station, Avadi, Madras under the Air Force Headquarters, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi.

[No. 1(1)/2000-D(OL-I)]

P.K. RASTOGI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2004

का. नि. आ. 54.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 की 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि के राजस्थान राज्य में जिला जोधपुर में गांव जाजिवाल कलां, जाजिवाल भण्डारिया, जाजिवाल धौडला, जाजिवाल खिचिया, जाजिवाल ककराला, बिश्नोई धानी और जाजिवाल में 19 फील्ड गोलाबारूद डिपो, द्वारा 56 एपीओ, जोधपुर के निकट अवस्थित होने के कारण उस भूमि को अधिसूचना जारी होने की तारीख से भवनों के निर्माण अथवा स्थापना तथा अन्य अवरोधों से मुक्त रखने के उद्देश्य से उस भूमि के उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है :—

अनुसूची

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2004

रक्षा संकर्म अर्थात् 19 फील्ड गोलाबारूद डिपो, द्वारा 56 एपीओ, जोधपुर की बाहरी चारदीवारी से 2000 गज की दूरी के अंतर्गत राजस्थान राज्य में गांव जाजिवाल कलां, जाजिवाल भण्डारिया, जाजिवाल धांडला, जाजिवाल खिचिया, जाजिवाल ककराला, बिश्नोई धानी और जाजिवाल के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि।

2. उपर्युक्त भूमि के स्थूल रेखाचित्र की जांच उपायुक्त, जोधपुर के कार्यालय में की जा सकती है।

[र.मं.अ.वि.सं.पीसी 47427/बी/VI/एल (दक्षिण)/
443/यूएस (आर)/रक्षा (भूमि)]

सहेली घोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 5th April, 2004

S.R.O. 54.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of Section 7 of this said Act, upon the use and enjoyment of the land situated in the district of Jodhpur in the State of Rajasthan, described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of 19 Field Ammunition Depot (FAD), C/o—56 APO, Jodhpur, at villages Jajiwal Kalan, Jajiwal Bhandaria, Jajiwal Dhandla, Jajiwal Khichiya, Jajiwal Kakrala, Bishnoi Dhani and Jajiwal in the State of Rajasthan in order that the said land may be kept free from construction or erection of further buildings and other obstructions in future from the date of issue of notification, namely :—

SCHEDULE

All the land falling within a distance of 2000 yards from the outer perimeter wall of the works of defence, namely, 19 Field Ammunition Depot (FAD), C/o—56 APO, Jodhpur, at villages Jajiwal Kalan, Jajiwal Bhandaria, Jajiwal Dhandla, Jajiwal Khichiya, Jajiwal Kakrala, Bishnoi Dhani and Jajiwal in the State of Rajasthan.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of Deputy Commissioner, Jodhpur.

[MOD ID No. PC-47427/B/VI/L (South)/
443/US(R)/D (Lands)]

SAHELI GHOSH ROY, Under Secy.

का. नि.आ. 55.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा मेजर बिनोद कुमार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, पचमढी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/52/पचमढी/सी/डीई/2001/1018/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th April, 2004

S.R.O. 55.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonment Act 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Pachmarhi by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in Chief, Central Command of resignation of Major Binod Kumar.

[F. No. 19/52/Pachmarhi/C/DE/2001/1018/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2004

का. नि.आ. 56.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, पचमढी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैप्टन जे. एस. चौहान को छावनी बोर्ड पचमढी का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/52/पचमढी/सी/डीई/2001/1018/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th April, 2004

S.R.O. 56.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonment Act 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Capt. J.S. Chauhan has been nominated as a member of the Cantonment Board Pachmarhi by the Station Commander, Pachmarhi in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Major Binod Kumar whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/52/Pachmarhi/C/DE/2001/1018/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)
(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2004

का.नि.आ. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (वायु) संगठन समूह 'ग' तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अननुसन्धिवीय पद भर्ती नियम, 1972 जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-I और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-II के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग, में वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में कतिपय समूह 'ख' और समूह 'ग' (वैज्ञानिक) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन समूह 'ख' और 'ग' अराजपत्रित (वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अवर वेतनमान)
2. पदों की संख्या	:	55* (2004) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय
4. वेतनमान	:	6500-200-10500 रु.
5. चयन अथवा अचयन पद	:	चयन
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी 1.—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : आवश्यक :
- (i) विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।
- (ii) निम्नलिखित किसी क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव :—
वायुयान/वायव इंजन/वायुयान उपसाधन/विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स/विद्युत उपस्कर और उपकरण/वायु आयुध भंडार/भू-सहायक उपस्कर/वायुयान कर्मिंदल के लिए जीवन रक्षा सहायक उडान परिधान/विमानन ईंधन और स्नेहक/वायुयान संयुक्त संरचना।
- या
- (i) विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य।
- (ii) निम्नलिखित किसी क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव :—
वायुयान/वायव इंजन/वायुयान उपसाधन/विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स/विद्युत उपस्कर और उपकरण/वायु आयुध भंडार/भू-सहायक उपस्कर/वायुयान कर्मिंदल के लिए जीवन रक्षा सहायक उडान परिधान/विमानन ईंधन और स्नेहक/वायुयान संपूर्ण संरचना।
- टिप्पण 1.—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
- टिप्पण 2.—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं : लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : 90% सीधी भर्ती द्वारा और 10% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा : प्रोन्नति : 5500-175-9000 के वेतनमान में ऐसा कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-1 जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो।
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति/पुष्टि के लिए)
1. निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष
वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन
महानिदेशक
2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी की पंक्ति का एक —सदस्य
अधिकारी

3. किसी अन्य रक्षा स्थापन से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी या समतुल्य

—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

2. 1. : कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-I

2. : 12* (2004)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसूचित

4. : 5500-175-9000 रु.

5. : चयन

6. : लागू नहीं होता

7. : 30 वर्ष से अनधिक

टिप्पण 1.—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणी 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8. : आवश्यक :

(i) विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।

या

(i) विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य।

(ii) निम्नलिखित किसी क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव :—

वायुयान/वायव इंजन/वायुयान उपसाधन/विमानन इलेक्ट्रोनिक्स/विद्युत उपस्कर और उपकरण/वायु आयुध भंडार/भू सहायक उपस्कर/वायुयान कर्मीदल के लिए जीवन रक्षा सहायक उड़ान परिधान/विमानन ईंधन और स्नेहक/वायुयान संपूर्ण संरचना।

टिप्पण 1.—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2.—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

9. : लागू नहीं होता

10. : दो वर्ष

11. : 60% सीधी भर्ती द्वारा और 40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

60% सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।

12. : प्रोन्नति : 5000-150-8000 रुपए के वेतनमान में ऐसा कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु वह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

13. : समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति/पुष्टि के लिए)

1. निदेशक (प्रशासन)

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन

महानिदेशक

—अध्यक्ष

2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य रक्षा स्थापन से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी या समतुल्य —सदस्य
14. : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।
3. 1. * : कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-II
2. : 10* (2004)
- * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4. : 5000-150-8000 रु.
5. : अचयन
6. : लागू नहीं होता
7. : 30 वर्ष से अनधिक
- टिप्पण 1.—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
- टिप्पणी 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
8. : आवश्यक :
- (i) विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य।
9. : लागू नहीं होता
10. : दो वर्ष
11. : 100% सीधी भर्ती द्वारा
12. : लागू नहीं होता
13. : 1. भारसाधक अधिकारी, वायु आयुध निरीक्षण स्कंध खमरिया —अध्यक्ष
2. एक ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I या मुख्यालय वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से समतुल्य प्रास्थिति का कोई अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य रक्षा स्थापन से ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I की पंक्ति या समतुल्य प्रास्थिति का कोई अधिकारी —सदस्य
14. : लागू नहीं होता।

[फा. सं. 2523/डीजीएक्यू/प्रशा-1/606-II/डी(हाल)]

वी० सेतुमाधवन, अवर सचिव

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Aeronautical Quality Assurance)

New Delhi, the 8th April, 2004

S.R.O. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Technical Development and Production (Air) Organisation Group 'C' Technical, Scientific and other Non-Ministerial posts Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the posts of Senior Scientific Assistant, Junior Scientific Assistant Grade-I and Junior Scientific Assistant Grade-II except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes

the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'B' and 'C' (Scientific) posts in the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance in the Department of Defence Production, under Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Group 'B' and 'C' Non-Gazetted (Scientific) posts Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, under consultation with UPSC for Group B post, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	: Senior Scientific Assistant (Lower scale)
2. Number of posts	: 55* (2004)
	* Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 6500-200-10500
5. Whether selection post or non-selection	: Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable
7. Age limit for direct recruit	: Not exceeding 30 years.
	Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
	Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).
8. Educational and other qualifications required for direct recruit	: Essential:
	(i) Master's degree in science or degree in engineering from a recognized university or equivalent.
	(ii) One year's experience in any of the following fields :—

Aircrafts/Aero Engines/Aircraft accessories/Aviation electronics/Electrical equipment and instrument/Air armament stores/Ground Support equipment/Flying clothing survival aids for Air Crew/Aviation fuel and lubricants/Aircraft composite structures.

OR

- (i) Bachelor's degree in science or Diploma in engineering from a recognized university/Institute or equivalent
- (ii) Four years experience in any of the following fields :—

Aircrafts/Aero Engines/Aircraft accessories/Aviation electronics/Electrical equipment and instrument/Air armament stores/Ground Support equipment/Flying clothing survival aids for Air Crew/Aviation fuel and lubricants/Aircraft composite structures.

Note-1 : Qualification are relaxable at the discretion of the UPSC in case of the candidates otherwise well qualified.

Note-2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in case of the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe if at any stage of the selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Two years for direct recruits.
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by absorption or deputation and percentage of posts to be filled by various methods : 90% by direct recruitment and 10% by promotion failing which by direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, the grades from which promotion/deputation/absorption to be made : **Promotion :**
Junior Scientific Assistant Grade-I in the pay scale of Rs 5500-175-9000 with three years service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion/confirmation) :—**
 1. Director (Admn.) Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Chairman
 2. One Officer of the rank of Principal Scientific Officer —Member
 3. An Officer of the rank of Principal Scientific Officer or equivalent from any other Defence establishment —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment : Consultation with UPSC necessary while making Direct recruitment.

2. 1. : Junior Scientific Assistant Grade-I
2. : 12*2004
- *Subject to variation dependent on workload.
3. : General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial,
4. : Rs. 5500-175-9000.
5. : Selection
6. : Not applicable
7. : Not exceeding 30 years.

Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

8. : **Essential :**

- (i) Master's degree in science or degree in engineering from a recognized university or equivalent
- (ii) One year's experience in any of the following fields :—

Aircraft/Aero Engines/Aircraft accessories/Aviation electronics/Electrical equipment and instrument/Air armament stores/Ground Support equipment/Flying clothing survival aids for Air Crew/Aviation fuel and lubricants/Aircraft composite structures.

OR

- (i) Bachelor's degree in science or Diploma in engineering from a recognized university/Institute or equivalent
- (ii) Four years experience in any of the following fields :—

Aircraft/Aero Engines/Aircraft accessories/Aviation electronics/Electrical equipment and instrument/Air armament stores/Ground Support equipment/Flying clothing survival aids for Air Crew/Aviation fuel and lubricants/Aircraft composite structures.

Note-1 : Qualification are relaxable at the discretion of the UPSC in case of the candidates otherwise well qualified.

Note-2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in case of the candidates belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe if at any stage of the selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9. : Not applicable
10. : Two years for direct recruits
11. : 90% by direct recruitment and 10% by promotion failing which by direct recruitment
12. : **Promotion :**

Junior Scientific Assistant Grade-II in the pay scale of Rs 5000-150-8000 with three years service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13. : **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion/confirmation) :—**

1. Director (Admin) Directorate General of
Aeronautical Quality Assurance
2. One officer of the rank of Principal
Scientific Officer

—Chairman

—Member

12-18 65/04-4

3. An officer of the rank of Principal Scientific Officer or equivalent from any other Defence establishment. —Member
14. : Consultation with UPSC not necessary. Direct recruitment is to be made through Staff Selection Commission.
3. 1. : Junior Scientific Assistant Grade-II
2. : 10* 2004
- *Subject to variation dependent on workload.
3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4. : Rs. 5000-150-8000.
5. : Non Selection
6. : Not applicable
7. : Not exceeding 30 years.
- Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
- Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).
8. : Essential :
- (i) Bachelor's degree in science or Diploma in engineering from a recognized university/Institute or equivalent
9. : Not applicable.
10. : Two years
11. : 100% by direct recruitment
12. : Not applicable.
13. : 1. Officer-in-Charge air Armament Inspection Wing Khamaria —Chairman
2. One Senior Scientific Officer Gde-I or an officer of equivalent status from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Member
3. An officer of the rank of Senior Scientific Officer Gde-I or equivalent status from any other Defence establishment —Member
14. : Not applicable.

[F. No. 2523/DGAQA/ADMIN-1/606-II/D(HAL)]

V. SETHUMADHAVAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2004

का.नि.आ. 58.—केन्द्रीय सरकार नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 2004 है।
- (2) ये 25 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होंगे।
2. नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1963 में,—
- (1) विनियम 52 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“52. फ्लैग आफिसर—फ्लैग आफिसर निम्नलिखित झंडे लगाएंगे :—

(1) एडमिरल ऑफ दी फ्लीट—किसी एडमिरल आफ दी फ्लीट द्वारा अपने समुचित ध्वज के रूप में मुख्यतः राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

(2) एडमिरल—एक श्वेत ध्वज क्षैतिज लाल पट्टी और उर्ध्वाधर लाल पट्टी सहित, जो झंडे के मध्य में एक दूसरे को काटती है, कटान पर एक नेवी ब्लू धर्म चक्र अध्यारोपित होगा।

(3) वाइस एडमिरल—एक श्वेत ध्वज क्षैतिज लाल पट्टी और उर्ध्वाधर लाल पट्टी सहित, जो झंडे के मध्य में एक दूसरे को काटती है, कटान पर एक नेवी ब्लू धर्म चक्र अध्यारोपित होगा, दंड से समीप ऊपरी भाग में लाल रंग का गोला होगा।

(4) रियर एडमिरल—एक श्वेत ध्वज क्षैतिज लाल पट्टी और उर्ध्वाधर लाल पट्टी सहित, जो झंडे के मध्य में एक दूसरे को काटती है, कटान पर एक नेवी ब्लू धर्म चक्र अध्यारोपित होगा, ध्वज के दंड से समीप ऊपरी भाग में एक लाल रंग का गोला और नीचे के भाग में भी एक लाल रंग का गोला होगा।

लाल गोले का अर्धव्यास दंड के अगले भाग में सफेद उर्ध्वाधर गहराई का आधा होगा और गोला मध्य भाग में होगा।”;

(2) विनियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“54. कमोडोर—एक श्वेत चौड़ी पताका जिसमें क्षैतिज लाल पट्टी और उर्ध्वाधर पट्टी जो पताका के मध्य में काटती है, ध्वज दंड से परे ऊपरी भाग में एक लाल रंग के गोले सहित कटान पर नेवी ब्लू धर्म चक्र अध्यारोपित होगा।

लाल गोले का अर्धव्यास दंड के अगले भाग में सफेद उर्ध्वाधर गहराई का आधा होगा और गोला मध्य भाग में होगा।”;

(3) विनियम 55 के उप विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) स्वतंत्र रूप से अवस्थित प्रतिष्ठानों के कमान आफिसर के रूप में कैप्टन रैंक के आफिसर उनकी कमान के अधीन आने वाले क्षेत्रों या ठीक साथ लगे क्षेत्रों के भीतर ज्येष्ठ आफिसर पताका कार झंडे के रूप में लगा सकेंगे। यह ज्येष्ठ आफिसर पताका सफेद तिकोनी पताका होगी जिसके साथ एक क्षैतिज लाल पट्टी और उर्ध्वाधर लाल पट्टी होगी जो पताका के केन्द्र में काटती हो, कटान पर एक नेवी ब्लू धर्म चक्र अध्यारोपित होगा। नौसेना अध्यक्ष ऐसे कार झंडे लगाने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी कर सकेगा।”;

(4) विनियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“56. कान्वाय कमोडोर ध्वज—वैसी श्वेत चौड़ी पताका लगाएगा जिसमें पताका के केन्द्र में क्षैतिज लाल पट्टी और उर्ध्वाधर लाल पट्टी पताका के केन्द्र में एक दूसरे को काटती है और नेवी ब्लू धर्म चक्र अध्यारोपित होगा जिसके साथ ध्वज दंड से लगे ऊपरी भाग में एक लाल गोला होगा, जैसा कि विनियम 54 में उसके ध्वज के रूप में वर्णित है।”

(5) विनियम 66 के उप विनियम (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) सफेद पोत ध्वज—एक सफेद रंग का पोत ध्वज जिसमें पोत ध्वज के केन्द्र में एक दूसरे को काटती हुई एक क्षैतिज लाल पट्टी और उर्ध्वाधर लाल पट्टी होगी, कटान पर सुनहरी पीला राज्य प्रतीक और ध्वज दंड से अगले ऊपरी भाग में राष्ट्रीय ध्वज अध्यारोपित होगा। श्वेत पोत ध्वज विनियम 70 में विहित रीति में प्रदर्शित किया जाएगा।”;

(6) विनियम 67 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“67. मस्तूल शिखर पताका—(1) कमीशन में सभी भारतीय नौसेना पोत जब वे किसी कार्यपालक अधिकारी के कमान में हो और जब उनके ऊपर कोई ध्वज या कोई चौड़ी पताका न लगी हो तो मस्तूल से लगे हुए भाग में काटती हुई क्षैतिज लाल पट्टी और उर्ध्वाधर लाल पट्टी तथा कटान पर एक नेवी ब्लू धर्म चक्र के अध्यारोपण सहित फ्लाई की ओर सूंडाकर होती हुई पताका जैसी एक श्वेत रिबन मुख्य मस्तूल के शिखर पर फहराया जाएगा।”

[फ. सं. सी एम/0164/बी/1074/निदेशक(नेवी-1)]

गौतम चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 111 तारीख 10 जुलाई, 2001 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 12th April, 2004

S.R.O. 58.—In exercise of the powers conferred by Section 184 of the Navy Act 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force with effect from 25 April, 2004.

2. In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963—

(1) for regulations 52, the following regulation shall be substituted, namely:

“52. **Flag Officers**—The following flags shall be worn by Flag Officers :—

(1) **Admiral of the Fleet.** The National Flag shall be flown at the main by an Admiral of the Fleet as his proper flag.

(2) **Admiral.** A white flag with a horizontal red stripe and vertical red stripe intersecting at the center of the flag, a Navy Blue Dharma Chakra superimposed on the intersection.

(3) **Vice Admiral.** A white flag with a horizontal red stripe and vertical red stripe intersecting at the center of the flag, a Navy Blue Dharma Chakra superimposed on the intersection, with one red roundel in the upper canton of the flag next to the staff.

(4) **Rear Admiral.** A white flag with a horizontal red stripe and vertical red stripe intersecting at the center of the flag, a Navy Blue Dharma Chakra superimposed on the intersection, with one red roundel in the upper canton and one in the lower canton next to the staff.

The diameter of the red roundel shall be half the vertical depth of the white of the cantons next to the staff and the roundel shall be in the center of the canton.”;

(2) for regulation 54, the following regulation shall be substituted namely:—

“54. **Commodore**—A white Broad Pendant with a horizontal red stripe and vertical red stripe intersecting at the center of the pendant, a Navy Blue Dharma Chakra superimposed on the intersection with one red roundel in the upper canton next to the staff.

The diameter of the red roundel shall be half the vertical depth of the white of the cantons next to the staff and the roundel shall be in the center of the canton.”;

(3) for sub-regulation (3) of regulation 55, the following regulation shall be substituted, namely :—

“(3) Officers of the rank of Captain as Commanding Officer of establishments independently located shall fly the Senior Officers' pendant as their car flag within the areas or in the immediate vicinity of the areas under their command. This Senior Officer's Pendant will be a white triangular pendant with a horizontal red stripe and vertical red stripe intersecting at the center of the pendant, a Navy Blue Dharma Chakra superimposed on the intersection. The Chief of the Naval Staff may issue necessary instructions regarding authorities authorised to fly such car flag.”;

(4) for regulation 56, the following regulation shall be substituted, namely :—

“56. **Convoy Commodore's Flag**—The convoy Commodore shall wear the same White Broad Pendant, with a horizontal red stripe and vertical red stripe intersecting at the center of the pendant, a Navy Blue Dharma Chakra superimposed on the intersection, with one red roundel in the upper canton next to the staff, as described in Regulation 54 as his flag.”

(5) in sub regulation (1) of regulation 66, for clause (a) the following shall be substituted, namely:—

“(a) **White Ensign**—An Ensign of white colour with a horizontal red stripe and vertical red stripe intersecting at the center of the Ensign, a golden yellow State Emblem superimposed on the intersection, and the National Flag in the upper canton next to the staff. The White Ensign shall be displayed in the manner prescribed in Regulation 70.”;

(6) for sub - regulation (1) of regulation 67, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

“67. **Masthead Pendant** —(1) All Indian Naval Ships on commission, when commanded by an executive officer, and when not wearing a flag or a broad pendant, shall fly at the main masthead a white ribbon like pendant tapering towards the fly, with a horizontal red stripe and vertical red stripe intersecting in the part adjoining the mast, and with a Navy Blue Dharma Chakra superimposed on the intersection.”

[F. No. CM/0164/B/1074/Dir(N-I)]

GAUTAM CHATTERJEE, Jt. Secy.

Note. The principal regulation was published in the Gazette of India vide S.R.O. 111 dated 10 July, 2001.